

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2014/माघ 2, 1935

No. 159]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2014/MAGHA 2, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ.164 (अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 49/2012-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 7 जून, 2012, जिसे का.आ. 1304 (अ), दिनांक 7 जून, 2012, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं.7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “66.35” के स्थान पर “0.6635” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “62.60” के स्थान पर “0.6260” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 164(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 49/2012-CUSTOMS (N.T.), dated the 7th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1304 (E), dated the 7th June, 2012, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

293GI/2014

(1)

- (i) in sub-column (a), for “66.35” read “0.6635”;
- (ii) in sub-column (b), for “62.60” read “0.6260”;

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]
M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ.165 (अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 52/2012-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 जून, 2012, जिसे का.आ. 1394 (अ), दिनांक 21 जून, 2012, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “68.35” के स्थान पर “0.6835” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “64.50” के स्थान पर “0.6450” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]
एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 165(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 52/2012-CUSTOMS (N.T.), dated the 21st June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1394 (E), dated the 21st June, 2012, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “68.35” read “0.6835”;
- (ii) in sub-column (b), for “64.50” read “0.6450”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]
M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ.166 (अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 56/2012-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 5 जुलाई, 2012, जिसे का.आ.1504 (अ), दिनांक 5 जुलाई, 2012, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “66.85” के स्थान पर “0.6685” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “62.85” के स्थान पर “0.6285” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]
एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 166(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 52/2012-CUSTOMS (N.T.), dated the 5th July, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1504 (E), dated the 5th July, 2012, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “66.85” read “0.66.85”;
- (ii) in sub-column (b), for “62.85” read “0.62.85”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 167(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 61/2012-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 19 जुलाई, 2012, जिसे का.आ. 1609 (अ), दिनांक 19 जुलाई, 2012, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “67.30” के स्थान पर “0.6730” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “63.35” के स्थान पर “0.6335” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 167(E).— In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 61/2012-CUSTOMS (N.T.), dated the 19th July, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1609 (E), dated the 19th July, 2012, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),-

- (i) in sub-column (a), for “67.30” read “0.6730”;
- (ii) in sub-column (b), for “63.35” read “0.6335”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 168(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 67/2012-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 1 अगस्त, 2012, जिसे का.आ. 1730 (अ), दिनांक 1 अगस्त, 2012, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं.7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “67.65” के स्थान पर “0.6765” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “63.80” के स्थान पर “0.6380” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 168(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 67/2012-CUSTOMS (N.T.), dated the 1st August, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1730 (E), dated the 1st August, 2012, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “67.65” read “0.6765”;
- (ii) in sub-column (b), for “63.80” read “0.6380”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 169(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 75/2012-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 16 अगस्त, 2012, जिसे का.आ. 1851 (अ), दिनांक 16 अगस्त, 2012, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “68.25” के स्थान पर “0.6825” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “64.30” के स्थान पर “0.6430” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 169(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.75/2012-CUSTOMS (N.T.), dated the 16th August, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1851 (E), dated the 16th August, 2012, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),-

- (i) in sub-column (a), for “68.25” read “0.6825”;
- (ii) in sub-column (b), for “64.30” read “0.6430”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 170(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 80/2012-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 6 सितम्बर, 2012, जिसे का.आ. 2040 (अ), दिनांक 6 सितम्बर, 2012, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “67.75” के स्थान पर “0.6775” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “64.00” के स्थान पर “0.6400” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 170(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 80/2012-CUSTOMS (N.T.), dated the 6th September, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2040(E), dated the 6th September, 2012, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “67.75” read “0.6775”;
- (ii) in sub-column (b), for “64.00” read “0.6400”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 171(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 84/2012-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 20 सितम्बर, 2012, जिसे का.आ. 2262 (अ), दिनांक 20 सितम्बर, 2012, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “65.95” के स्थान पर “0.6595” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “62.20” के स्थान पर “0.6220” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 171(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 84/2012-CUSTOMS (N.T.), dated the 20th September, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2262 (E), dated the 20th September, 2012, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “65.95” read “0.6595”;
- (ii) in sub-column (b), for “62.20” read “0.6220”.

[F.No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 172(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 91/2012-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 4 अक्तूबर, 2012, जिसे का.आ. 2360 (अ), दिनांक 4 अक्तूबर, 2012, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “63.50” के स्थान पर “0.6350” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “59.55” के स्थान पर “0.5955” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 172(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 91/2012- CUSTOMS (N.T.), dated the 4th October, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2360 (E), dated the 4th October, 2012, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “63.50” read “0.6350”;
- (ii) in sub-column (b), for “59.55” read “0.5955”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 173(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 95/2012-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 18 अक्टूबर, 2012, जिसे का.आ. 2518 (अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2012, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “63.90” के स्थान पर “0.6390” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “60.00” के स्थान पर “0.6000” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 173(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 95/2012-CUSTOMS (N.T.), dated the 18th October, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2518 (E), dated the 18th October, 2012, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “63.90” read “0.6390”;
- (ii) in sub-column (b), for “60.00” read “0.6000”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 174(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 97/2012-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 1 नवम्बर, 2012, जिसे का.आ. 2669 (अ), दिनांक 1 नवम्बर, 2012, के तहत

भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “65.35” के स्थान पर “0.6535” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “61.55” के स्थान पर “0.6155” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 174(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 97/2012- CUSTOMS (N.T.), dated the 1st November, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2669 (E), dated the 1st November, 2012, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),-

- (i) in sub-column (a), for “65.35” read “0.6535”;
- (ii) in sub-column (b), for “61.55” read “0.6155”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 175(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 99/2012-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 16 नवम्बर, 2012, जिसे का.आ. 2719(अ), दिनांक 16 नवम्बर, 2012, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “66.40” के स्थान पर “0.6640” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “62.30” के स्थान पर “0.6230” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 175(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 99/2012-CUSTOMS (N.T.), dated the 16th November, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2719 (E), dated the 16th November, 2012, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “66.40” read “0.6640”;
- (ii) in sub-column (b), for “62.30” read “0.6230”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 176(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 108/2012-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 6 दिसम्बर, 2012, जिसे का.आ. 2838 (अ), दिनांक 6 दिसम्बर, 2012, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “65.50” के स्थान पर “0.6550” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “61.55” के स्थान पर “0.6155” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 176(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 108/2012-CUSTOMS (N.T.), dated the 6th December, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2838(E), dated the 6th December, 2012, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “65.50” read “0.6550”;
- (ii) in sub-column (b), for “61.55” read “0.6155”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 177(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 111/2012-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 20 दिसम्बर, 2012, जिसे का.आ. 2966 (अ), दिनांक 20 दिसम्बर, 2012, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “65.75” के स्थान पर “0.6575” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “61.85” के स्थान पर “0.6185” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 177(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 111/2012-CUSTOMS (N.T.), dated the 20th December, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2966 (E), dated the 20th December, 2012, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “65.75” read “0.6575”;
- (ii) in sub-column (b), for “61.85” read “0.6185”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 178(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 1/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 जनवरी, 2013, जिसे का.आ. 37(अ), दिनांक 3 जनवरी, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “65.25” के स्थान पर “0.6525” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “61.25” के स्थान पर “0.6125” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 178(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 3rd January, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 37 (E), dated the 3rd January, 2013, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “65.25” read “0.6525”;
- (ii) in sub-column (b), for “61.25” read “0.6125”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 179(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 5/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 17 जनवरी, 2013, जिसे का.आ. 190(अ), दिनांक 17 जनवरी, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “65.00” के स्थान पर “0.6500” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “61.30” के स्थान पर “0.6130” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 179(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 5/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 17th January, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 190 (E), dated the 17th January, 2013, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “65.00” read “0.6500”;
- (ii) in sub-column (b), for “61.30” read “0.6130”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 180(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 20/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 7 फरवरी, 2013, जिसे का.आ. 331(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “62.35” के स्थान पर “0.6235” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “58.70” के स्थान पर “0.5870” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 180(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 20/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 7th February, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 331(E), dated the 7th February, 2013, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “62.35” read “0.6235”;
- (ii) in sub-column (b), for “58.70” read “0.5870”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 181(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 23/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 फरवरी, 2013, जिसे का.आ. 424(अ), दिनांक 21 फरवरी, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “64.15” के स्थान पर “0.6415” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “60.20” के स्थान पर “0.6020” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 181(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 23/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 21st February, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 424(E), dated the 21st February, 2013, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “64.15” read “0.6415”;
- (ii) in sub-column (b), for “60.20” read “0.6020”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 182(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 28/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 7 मार्च, 2013, जिसे का.आ. 574(अ), दिनांक 7 मार्च, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “65.90” के स्थान पर “0.6590” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “62.05” के स्थान पर “0.6205” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 182(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 28/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 7th March, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 574(E), dated the 7th March, 2013, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “65.90” read “0.6590”;
- (ii) in sub-column (b), for “62.05” read “0.6205”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 183(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 31/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 मार्च, 2013, जिसे का.आ. 796(अ), दिनांक 21 मार्च, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “65.60” के स्थान पर “0.6560” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “61.70” के स्थान पर “0.6170” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 183(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 31/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 21st March, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 796(E), dated the 21st March, 2013, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “65.60” read “0.6560”;
- (ii) in sub-column (b), for “61.70” read “0.6170”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.-V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 184(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 35/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 4 अप्रैल, 2013, जिसे का.आ. 925(अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “66.15” के स्थान पर “0.6615” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “62.25” के स्थान पर “0.6225” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 184(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 35/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 4th April, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 925(E), dated the 4th April, 2013, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3):—

- (i) in sub-column (a), for “66.15” read “0.6615”;
- (ii) in sub-column (b), for “62.25” read “0.6225”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.-V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 185(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 40/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 18 अप्रैल, 2013, जिसे का.आ. 993(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “66.35” के स्थान पर “0.6635” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “62.25” के स्थान पर “0.6225” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 185(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 40/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 18th April, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 993(E), dated the 18th April, 2013, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3):—

- (i) in sub-column (a), for “66.35” read “0.6635”;
- (ii) in sub-column (b), for “62.25” read “0.6225”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.-V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 186(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 52/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 मई, 2013, जिसे का.आ. 1121(अ), दिनांक 2 मई, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “66.80” के स्थान पर “0.6680” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “62.65” के स्थान पर “0.6265” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 186(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 52/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 2nd May, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1121(E), dated the 2nd May, 2013, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3):—

- (i) in sub-column (a), for “66.80” read “0.6680”;
- (ii) in sub-column (b), for “62.65” read “0.6265”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.-V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 187(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 54/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 16 मई, 2013, जिसे का.आ. 1224(अ), दिनांक 16 मई, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “67.60” के स्थान पर “0.6760” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “63.50” के स्थान पर “0.6350” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 187(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 54/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 16th May, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1224(E), dated the 16th May, 2013, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3):—

- (i) in sub-column (a), for “67.60” read “0.6760”;
- (ii) in sub-column (b), for “63.50” read “0.6350”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.-V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 188(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 59/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 6 जून, 2013, जिसे का.आ. 1465(अ), दिनांक 6 जून, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “68.25” के स्थान पर “0.6825” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “64.15” के स्थान पर “0.6415” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 188(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 59/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 6th June, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1465(E), dated the 6th June, 2013, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “68.25” read “0.6825”;
- (ii) in sub-column (b), for “64.15” read “0.6415”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director(ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 189(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 63/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 20 जून, 2013, जिसे का.आ. 1771(अ), दिनांक 20 जून, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “70.50” के स्थान पर “0.7050” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “66.55” के स्थान पर “0.6655” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 189(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 63/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 20th June, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1771(E), dated the 20th June, 2013, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3):—

- (i) in sub-column (a), for “70.50” read “0.7050”;
- (ii) in sub-column (b), for “66.55” read “0.6655”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.-V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 190(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 70/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 4 जुलाई, 2013, जिसे का.आ. 2004(अ), दिनांक 4 जुलाई, 2013, के तहत भारत

के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “71.95” के स्थान पर “0.7195” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “67.60” के स्थान पर “0.6760” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक(आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 190(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 70/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 4th July, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2004(E), dated the 4th July, 2013, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “71.95” read “0.7195”;
- (ii) in sub-column (b), for “67.60” read “0.6760”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director(ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 191(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 76/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 18 जुलाई, 2013, जिसे का.आ. 2191(अ), दिनांक 18 जुलाई, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “70.40” के स्थान पर “0.7040” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “66.10” के स्थान पर “0.6610” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 191(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 76/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 18th July, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2191(E), dated the 18th July, 2013, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3):—

- (i) in sub-column (a), for “70.40” read “0.7040”;
- (ii) in sub-column (b), for “66.10” read “0.6610”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.-V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 192(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 81/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 1 अगस्त, 2013, जिसे का.आ. 2329(अ), दिनांक 1 अगस्त, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “72.20” के स्थान पर “0.7220” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “67.85” के स्थान पर “0.6785” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 192(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 81/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 1st August, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2329(E), dated the 1st August, 2013, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “72.20” read “0.7220”;
- (ii) in sub-column (b), for “67.85” read “0.6785”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 193(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 83/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 14 अगस्त, 2013, जिसे का.आ. 2467(अ), दिनांक 14 अगस्त, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “72.05” के स्थान पर “0.7205” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “68.05” के स्थान पर “0.6805” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 193(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 83/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 14th August, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2467(E), dated the 14th August, 2013, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3),—

- (i) in sub-column (a), for “72.05” read “0.7205”;
- (ii) in sub-column (b), for “68.05” read “0.6805”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director(ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 194(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 87/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 22 अगस्त, 2013, जिसे का.आ. 2560(अ), दिनांक 22 अगस्त, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “76.30” के स्थान पर “0.7630” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “72.00” के स्थान पर “0.7200” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 194(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 87/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 22nd August, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 37(E), dated the 22nd August, 2013, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3):—

- (i) in sub-column (a), for “76.30” read “0.7630”;
- (ii) in sub-column (b), for “72.00” read “0.7200”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.-V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 195(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 95/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 5 सितम्बर, 2013, जिसे का.आ. 2676(अ), दिनांक 5 सितम्बर, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “78.15” के स्थान पर “0.7815” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “73.40” के स्थान पर “0.7340” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक(आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 195(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 95/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 5th September, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2676(E), dated the 5th September, 2013, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3):—

- (i) in sub-column (a), for “78.15” read “0.7815”;
- (ii) in sub-column (b), for “73.40” read “0.7340”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.-V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 196(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 99/2013-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 16 सितम्बर, 2013, जिसे का.आ. 2802(अ), दिनांक 16 सितम्बर, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची I में, क्रम सं. 7 के समक्ष केन्यन शिल्लिंग से सम्बन्धित, कालम (3) में :—

- (i) उप-कालम (क), में “73.60” के स्थान पर “0.7360” पढ़े
- (ii) उप-कालम (ख), में “69.50” के स्थान पर “0.6950” पढ़े।

[फा. सं. 468/04/2013-सीमा शुल्क-V]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2014

S.O. 196(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 99/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 16th September, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2802(E), dated the 16th September, 2013, in SCHEDULE I, against serial number 7 relating to Kenyan Shilling, in column (3):—

- (i) in sub-column (a), for “73.60” read “0.7360”;
- (ii) in sub-column (b), for “69.50” read “0.6950”.

[F. No. 468/04/2013-Cus.-V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)